



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

30 ज्येष्ठ 1945 (श10)  
(सं0 पटना 479) पटना, मंगलवार, 20 जून 2023

---

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना  
19 जून 2023

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)०1-०1/2023-514—बिहार राज्यपाल का दिनांक 17.06.2023 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचना के लिए इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

“भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधान सभा को दिनांक 10 जुलाई, 2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में बिहार विधान सभा वेश्म, पटना में अधिवेशित होने के लिए आहूत करता हूँ।

पटना,  
दिनांक 17.06.2023

राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर,  
राज्यपाल, बिहार।”

उदय प्रताप सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

19 जून 2023

सं० सं०का०-1/वि०मं०(सत्र)०1-०1/2023-515—अधिसूचना संख्या 514 दिनांक 19.06.2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
उदय प्रताप सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

**The 19<sup>th</sup> June 2023**

**No- P.A.-1/V.M.(Session)-01-01/2023-514**—The Following order of the Governor of Bihar dated the **17.06.2023** is hereby published for general information:-

**“In exercise of the powers under Clause (1) of Article 174 of the Constitution of India, I, Rajendra Vishwanath Arlekar, Governor of Bihar, hereby summon the Bihar Legislative Assembly to meet at 11:00 A.M. on the 10<sup>th</sup> July, 2023 in the Assembly Chamber, Patna.**

**Patna,  
Dated 17.06.2023**

**Rajendra Vishwanath Arlekar,  
Governor of Bihar.”**

**Uday Pratap Singh,  
Joint Secy. to Govt.**

भारत के संविधान के अधीन गठित सप्तदश बिहार विधान सभा के नवम-सत्र का औपबन्धिक कार्यक्रम

जुलाई, 2023

सोमवार, दिनांक 10 जुलाई, 2023

1. शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण (यदि हो)।
2. बिहार विधान मंडल के सत्र में नहीं रहने की अवधि में महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों का सदन पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
3. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन।
4. शोक प्रकाश (यदि हो)।

मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई, 2023

बुधवार, दिनांक 12, जुलाई, 2023

}

राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य।

वृहस्पतिवार, दिनांक 13 जुलाई, 2023

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक।

शुक्रवार, दिनांक 14 जुलाई, 2023

गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 479-571+10-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**